



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21—अप्रैल 27, 2012 (वैसाख 1, 1934)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21—APRIL 27, 2012 (VAISAKHA 1, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया  
कानपुर-208001, दिनांक 27 जनवरी 2012

## चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

3 सी.सी.ए. (8)(1)/2010-2011--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम (10)(1)(iv) एवं विनियम 10(2) (ब) के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों का व्यवसाय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान न करने के कारण दिनांक 01 अक्टूबर 2010 से रद्द कर दिया गया है :--

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान
1.	014797	सीए राज बलि मिश्रा, एफसीए	भदोही
2.	055599	सीए राज नारायण, नारोने एफसीए	गाजियाबाद
3.	056313	सीए नेवार प्रकाश, एसीए	कोलकाता
4.	071183	सीए अग्रवाल प्रदीप, एफसीए	मेरठ
5.	071504	सीए रथी केदारमल, एसीए	जयपुर
6.	072312	सीए अग्रवाल राजेन्द्र कुमार, एफसीए	कानपुर
7.	073645	सीए जैन तेज कुमार, एसीए	जयपुर

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम	स्थान
8.	073721	सीए प्रेम कुमार अग्रवाल, एसीए	कानपुर
9.	073969	सीए सैनानी कुन्दन, एसीए	उदयपुर
10.	075723	सीए गुप्ता कृष्ण कुमार, एसीए	जयपुर
11.	076728	सीए खण्डेलवाल अशोक कुमार, एफसीए	जयपुर
12.	077142	सीए सिंह अजय प्रताप, एफसीए	नोएडा
13.	077143	सीए अग्रवाल रीतू, एसीए	नोएडा
14.	077185	सीए रजित मल्होत्रा, एसीए	नोएडा
15.	077209	सीए भूवनेश गुप्ता, एफसीए	कोट
16.	077953	सीए चौधरी नवीन, एफसीए	इन्दौर
17.	078045	सीए साहनी प्रवीन कुमार, एफसीए	मुजफ्फरनगर
18.	078612	सीए अग्रवाल विनीत, एसीए	भिलाई
19.	078919	सीए विजयन्त गोयल, एसीए	इन्दौर
20.	078959	सीए भार्गव शरद, एफसीए	गाजियाबाद
21.	079227	सीए रनका नितिन, एसीए	जयपुर
22.	093122	सीए जैन वर्धमान, एफसीए	नोएडा

S. NO.	M.R.N.	NAME	PLACE	SNO	M.R.N.	NAME	PLACE
23	400153	सीए बंसल भारत एसीए	गाजियाबाद	41	405136	सीए अश्वनी महेश्वरी एफसीए	जयपुर
24	400721	सीए विवेक कुमार जैन एफसीए	जयपुर	42	405580	सीए शिल्पी सेठ एसीए	जबलपुर
25	401208	सीए सचान मेघा एसीए	कोटा	43	406000	सीए बृजेश कुमार पाण्डेय एसीए	इलाहाबाद
26	401301	सीए स्वतंत्र कुमार सिंह एफसीए	आगरा	44	406468	सीए अभिनव गुप्ता एसीए	जयपुर
27	401492	सीए रचना वैश एफसीए	बिजनौर	45	407524	सीए अखिलेश तिवारी एसीए	भोपाल
28	401697	सीए प्रतीक कुमार एफसीए	मेरठ	46	408282	सीए अनुराग गुप्ता एसीए	बेंगलुरु
29	401843	सीए अग्रवाल सचिन एसीए	गाजियाबाद	47	408433	सीए निशी गोयल एसीए	दिल्ली
30	402183	सीए शालनी भण्डारी एसीए	जयपुर	48	408975	सीए शुभि सेठ एसीए	जयपुर
31	402216	सीए सरकार सुदीप एसीए	इन्दौर	49	409361	सीए अमित कुमार वैश्य एसीए	लखनऊ
32	402474	सीए मोदी मंजरी एसीए	रॉंची	50	410090	सीए अरविन्द कुमार शुक्ला एसीए	कानपुर
33	402601	सीए डॉ विजय कुमार एसीए	रॉंची	51	410169	सीए रचना जैन एसीए	पालीमरवार
34	402744	सीए मधु धिया एसीए	बीकानेर	52	410296	सीए श्वेता अग्रवाल एसीए	आगरा
35	403304	सीए होजेफा राशिद सैफुद्दीन एसीए	उदयपुर	53	410362	सीए रुचिका गुप्ता एसीए	श्री गंगानगर
36	403676	सीए अरोड़ा आशीष एफसीए	मिर्जापुर	54	410727	सीए प्रियांशी गोयल एसीए	जयपुर
37	403862	सीए सरासवत टीना एसीए	इन्दौर	55	410898	सीए विवेक वर्मा एसीए	इलाहाबाद
38	403879	सीए जैन सचिन एसीए	झाँसी	56	410992	सीए ज्ञान मूर्ति साह एसीए	छहबासा
39	404025	सीए अग्रवाल निधि एसीए	जयपुर	57	411727	सीए अंशुल शेखर नायक एसीए	मिलाई
40	404870	सीए श्रीवास्तव विनीत एसीए	लखनऊ	58	501495	सीए शशि शंकर एसीए	मधुबनी

S. NO.	M.R.N.	NAME	PLACE	SNO	M.R.N.	NAME	PLACE
59	502244	सीए गर्ग सूची एसीए	गाजियाबाद	65	513164	सीए निखिल महेश्वरी एसीए	नोएडा
60	502462	सीए मुक्ता बंसल एसीए	गाजियाबाद	66	513201	सीए राजन <sup>क/प/र/प/</sup> <del>क/प/र/प/</del> एसीए	नोएडा
61	503010	सीए गुप्ता आशीष एफसीए	फिरोजाबाद	67	513478	सीए नितिन जैन एसीए	मेरठ
62	506184	सीए बिपलोप हलदर एसीए	गाजियाबाद	68	513769	सीए शिवांगी जैन एसीए	साहिबाबाद
63	508805	सीए लक्ष्मण शर्मा एसीए	गाजियाबाद	69	514908	सीए पवन केसरवानी एसीए	इलाहाबाद
64	512393	सीए मानीत कुनाल एसीए	गाजियाबाद				टी कार्तिकेयन सचिव

3 सी.सी.ए. (8)(2)/2010-2011-चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम 10(1) खण्ड-3 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये व्यवसाय प्रमाण पत्र उनके द्वारा व्यवसाय समाप्त कर देने के कारण उनके आगे दी गयी तिथियाँ से रद्द कर दिया गया है :-

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
1.	028498	सीए अशोक आर. एफसीए	नोएडा	05.04.10	12.	072151	सीए कपूर दीपक एफसीए	मेरठ	07.07.10
2.	046627	सीए नवीन जैन एफसीए	जयपुर	21.02.11	13	073072	सीए अग्रवाल संजीव कुमार एफसीए	कानपुर	12.10.10
3.	056828	सीए श्रीवास्तव मुकेश एफसीए	बेंगलुरु	04.01.11	14	073156	सीए पालरीवाला मुरारी एफसीए	इन्दौर	13.12.10
4	061124	सीए वैकटेश कुमार पाण्डेय एफसीए	नई दिल्ली	31.03.10	15	073182	सीए कपूर पुनीत एफसीए	लखनऊ	01.07.10
5.	064130	सीए अडुकिया विकास कुमार एसीए	जबलपुर	20.02.11	16	073338	सीए अग्रवाल अनिल कुमार एफसीए	जयपुर	01.04.10
6.	065426	सीए कमलेन्द्र झा एसीए	वाराणसी	15.05.09	17	073410	सीए श्याम सुन्दर सुल्तानिया एसीए	जयपुर	01.03.10
7.	067309	सीए अभिनव अग्रवाल एसीए	फोरबेसगंज	10.05.10	18	073818	सीए गुप्ता राम फल एफसीए	आगरा	15.09.10
8.	070176	सीए गुप्ता कमल राज एफसीए	कानपुर	04.05.10	19	074364	सीए सोमनी कमल कुमार एफसीए	जयपुर	08.11.10
9.	070409	सीए अबरोल अनिल कुमार एफसीए	गाजियाबाद	05.12.10	20	074605	सीए अग्रवाल संजय एफसीए	लखनऊ	01.04.10
10.	071553	सीए रंगा पन्ना लाल एफसीए	जोधपुर	01.04.10	21	074755	सीए गुप्ता संजीव कुमार एफसीए	गाजियाबाद	20.12.10
11.	071798	सीए भण्डारी नलिन एफसीए	नोएडा	14.02.11					

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
22	074981	सीए बंसल ओम प्रकाश एफसीए	जयपुर	29.01.11	36	078634	सीए सीमा खण्डेलिया एफसीए	जयपुर	13.05.10
23	075387	सीए अग्रवाल संजीव कुमार एफसीए	रुद्रपुर	26.08.09	37	078736	सीए श्रीवास्तव आशीष कुमार एफसीए	कानपुर	01.03.11
24	076003	सीए नावेदिया महावीर एफसीए	उदयपुर	05.10.10	38	078912	सीए गुप्ता अनिल कुमार एफसीए	इन्दौर	14.03.11
25	076024	सीए श्रीवास्तव अनपुम एफसीए	नई दिल्ली	01.04.10	39	078992	सीए श्रीवास्तव मनीष कुमार एफसीए	लखनऊ	04.09.10
26	076587	सीए गुप्ता भारत भूषण एफसीए	जयपुर	16.08.10	40	079282	सीए नरेन्द्र कुमार भण्डारी एफसीए	विजय नगर	22.02.11
27	076643	सीए मित्तल नितिन एफसीए	गाजियाबाद	09.06.10	41	079313	सीए शर्मा कुंज बिहारी एफसीए	कोलकाता	02.02.11
28	077092	सीए गुप्ता राम बाबू एफसीए	मंगलोर	07.06.10	42	079372	सीए रीतेश अग्रवाल एफसीए	रायपुर	01.08.10
29	077216	सीए मोदी नितिन एफसीए	जयपुर	15.11.10	43	079404	सीए मोना माथुर एफसीए	जयपुर	25.10.10
30	077226	सीए धानुका मनोज एफसीए	इन्दौर	14.07.10	44	079694	सीए अग्रवाल अंकुर एफसीए	गाजियाबाद	20.04.10
31	077326	सीए जिंदल समीर सेन एफसीए	गाजियाबाद	28.06.10	45	079866	सीए जीतेश अग्रवाल एफसीए	जयपुर	31.03.10
32	077422	सीए नन्दवाना ललित एफसीए	जयपुर	27.12.10	46	079899	सीए आनन्द कुमार यादव एफसीए	जयपुर	05.02.11
33	077789	सीए सिंह दलीप सिंह एफसीए	जमशेदपुर	06.12.10	47	079928	सीए श्याम सुन्दर राय एफसीए	वाराणसी	28.03.11
34	078042	सीए न्याती शशांत एफसीए	इन्दौर	04.03.11					
35	078131	सीए कोठारी नरेश एफसीए	जयपुर	25.02.11					

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
48	079958	सीए पवन कुमार केड़िया एफसीए	जयपुर	01.04.10	62	400086	सीए जायसवाल रवि एफसीए	जयपुर	02.07.10
49.	083880	सीए गुप्ता सतीश कुमार एफसीए	गुड़गांव	08.03.11	63	400547	सीए मनीष चन्द्र बंसल एफसीए	गाजियाबाद	25.05.10
50.	087855	सीए चतुर्वेदी कैलाश नाथ एफसीए	मथुरा	15.11.10	64	400969	सीए कट्टा गुरुपद एसीए	जयपुर	31.08.10
51	089302	सीए भारत भूषण एफसीए	श्रीगंगानगर	01.12.10	65	400975	सीए नरेन्द्र लालवानी एफसीए	जयपुर 2	11.01.11
52	095699	सीए अग्रवाल हेमन्त एसीए	गाजियाबाद	12.09.10	66	401169	सीए पीयूष मित्तल एफसीए	भरतपुर	14.10.10
53	096049	सीए गुप्ता राजीव एसीए	नोएडा	15.02.10	67	401211	सीए सौरभ विष्णु अग्रवाल एफसीए	पटना	01.04.10
54	097401	सीए मनमोहन कुमार एफसीए	गाजियाबाद	20.11.10	68	401533	सीए मुकेश वार्यानी एफसीए	शाजापुर	31.08.10
55	097421	सीए डाढ़ू नितिन एफसीए	गाजियाबाद	01.09.10	69	401600	सीए राजीव गोयल एफसीए	कानपुर	15.10.10
56	098487	सीए विपिन गोयल एफसीए	नोएडा	15.05.10	70	401796	सीए सुनील तालरेजा एफसीए	जयपुर	31.03.10
57	098972	सीए जैन मनिन्दर एफसीए	नई दिल्ली	23.08.10	71	402133	सीए अखिलेश अग्रवाल एफसीए	वाराणसी	01.04.10
58	099690	सीए गजेन्द्र कुमार सिंह एफसीए	गाजियाबाद	14.01.10	72	402374	सीए बानू समीना एफसीए	उदयपुर	12.08.10
59	106022	सीए मनीष कुमार वी. त्यागी	मुम्बई	03.05.10	73	402446	सीए अलोक सिंह एफसीए	जयपुर	25.05.10
60	111813	सीए गिरिराज सोमानी एसीए	बूंदी	01.04.10	74	402463	सीए अरविन्द शर्मा एसीए	जयपुर	07.04.10
61	400017	सीए ओस्तवाल पंकज एफसीए	मिलावाड़ा	03.09.10	75	402555	सीए गुंजन विमल कुमार पोद्दार एफसीए	राजनंद गांव	01.08.10

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
76	402592	सीए आशीष अग्रवाल एफसीए	पनसेमल	20.09.10	88	404186	सीए जोशी राज कुमार एफसीए	बीकानेर	28.02.11
77	403024	सीए कंचल अजय कुमार एसीए	टोंक	30.03.10	89	404284	सीए रस्तोगी शैलेश एफसीए	थाने	01.04.10
78	403061	सीए विपिन खण्डेलवाल एफसीए	वालसद	02.02.11	90	404313	सीए प्रतिभा महेश्वरी एसीए	इन्दौर	07.02.11
79	403106	सीए अग्रवाल सुनील एसीए	जयपुर	13.07.10	91	404337	सीए सौरभ त्रिपाठी एसीए	औरैया	18.11.10
80	403179	सीए अग्रवाल पंकज कुमार एसीए	जयपुर	02.01.11	92	404435	सीए गोयल आशीष एसीए	इन्दौर	20.02.10
81	403375	सीए गुप्ता विनोद कुमार एसीए	गांधी धाम	01.04.10	93	404478	सीए मिश्रा विपिन एफसीए	कानपुर	01.04.10
82	403681	सीए मिश्रा आशू एसीए	कानपुर	21.05.10	94	404508	सीए सुमन भाटिया एसीए	श्री गंगानगर	28.12.10
83	403719	सीए चापलोट मयंक एफसीए	उदयपुर	25.10.10	95	404514	सीए अग्रवाल नितिन कुमार एफसीए	लखनऊ	01.04.10
84	403902	सीए राव प्रशांत सिंह एसीए	उदयपुर	31.12.10	96	404620	सीए जैन गौरव एसीए	इन्दौर	10.05.10
85	403915	सीए भावन्धिया मनीष कुमार एसीए	जयपुर	20.12.10	97	404656	सीए दीपक कुमार गोयल एसीए	भरतपुर	01.06.10
86	404059	सीए मिश्रा राकेश कुमार एसीए	जमशेदपुर	01.12.10	98	404877	सीए दीपक गुप्ता एसीए	बारन	24.03.11
87	404066	सीए भदौरिया संजय सिंह एसीए	भोपाल	31.03.10	99	405116	सीए गर्ग कपिल एसीए	भरतपुर	22.06.10
					100	405177	सीए नफीस अहमद एसीए	कानपुर	01.11.10
					101	405198	सीए अग्रवाल सारिका एफसीए	कानपुर	01.04.10
					102	405862	सीए मुकुल भगत एसीए	कानपुर	01.12.10

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
103	406029	सीए प्रतिभा पाल एसीए	रॉंची	01.02.11	118	407887	सीए नीमेश कुमार सारास्वत एसीए	गोण्डा	01.11.10
104	406159	सीए अमित कुमार एफसीए	बुलन्दशहर	25.10.10	119	408170	सीए बागचन्द जैन एसीए	नागौर	08.05.10
105	406216	सीए शैलेश नौलखा एसीए	कोलकाता	05.06.10	120	408635	सीए आयुष जैन एसीए	इन्दौर	20.01.11
106	406444	सीए सौरभ कुमार शुक्ला एसीए	जबलपुर	04.11.10	121	408666	सीए हरीश कुमार गुप्ता एसीए	भिलाई	01.09.10
107	406685	सीए आशुतोष कुमार एसीए	वाराणसी	18.03.11	122	408719	सी हिमान्यु जैन एसीए	आगरा	04.10.10
108	406947	सीए अमित खण्डेलवाल एसीए	जयपुर	17.02.11	123	408812	सीए अजय कुमार पुरोहित एसीए	बीकानेर	15.06.10
109	407146	सीए धर्मेन्द्र कुमार एसीए	बलोत्रा	10.05.10	124	408861	सीए स्वाती मेहरोत्रा एसीए	लखनऊ	24.06.10
110	407150	सीए नीलेश गुप्ता एसीए	हैदराबाद	19.02.11	125	408959	सीए शोक्त शेख, एसीए	भोपाल	03.12.10
111	407201	सीए अटल राम क्षत्रिय एसीए	सागर	01.04.10	126	408984	सीए नीकुंज अग्रवाल एसीए	जयपुर	02.12.10
112	407296	सीए प्रशांत चारीमल एसीए	नई दिल्ली	09.07.10	127	409024	सीए विजय कुमार नवलानी एसीए	आगरा	03.02.11
113	407492	सीए अमित कुमार जैन एसीए	रायपुर	17.07.10	128	409040	सीए नीलमा खण्डेलवाल एसीए	कानपुर	15.11.10
114	407619	सीए प्रदीप अजमेरा एसीए	जयपुर	01.03.10	129	409164	सीए वरुण कुमार गुप्ता एसीए	गाजियाबाद	13.03.10
115	407703	सीए सुभाष चन्द्र पाण्डेय एसीए	गोण्डा	05.09.10	130	409167	सीए आचल सेठ एसीए	जबलपुर	20.08.10
116	407872	सीए आशीष अग्रवाल एसीए	जमशेदपुर	15.11.10	131	409206	सीए नीशांत सोनी एसीए	राजनंद गांव	13.12.10
117	407877	सीए वीरेन सिंह गहलोत एसीए	जोधपुर	01.04.10					

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
132	409370	सीए रेहनुमा खान एसीए	उदयपुर	02.01.11	147	410394	सीए वरूण गोयनका एसीए	भागलपुर	01.02.11
133	409419	सीए संदीप कुमार मालू एसीए	जयपुर	24.05.10	148	410407	सीए रेनू मनडोरा एसीए	मुम्बई	18.01.11
134	409518	सीए विपिन ताम्बी एसीए	जयपुर	12.08.09	149	410445	सीए नीशान्त विजय वैराग्य, एसीए	जयपुर	18.09.10
135	409746	सीए अमित कुमार एसीए	पटना	12.08.10	150	410605	सीए मोहित खेमका एसीए	हाथरस	02.01.11
136	409792	सीए नीति श्रीवास्तव एसीए	जयपुर	13.07.10	151	410631	सीए रवि खण्डेलवाल एसीए	दौसा	15.03.11
137	409796	सीए श्याम सुन्दर प्रसाद ठाकुर एसीए	जमशेदपुर	11.09.10	152	410697	सीए संदीप सिंह मल्होत्रा, एसीए	राँची	09.08.10
138	409821	सीए शैलेन्द्र कुमार एसीए	रायपुर	25.03.10	153	410730	सीए ज्योति चौहान एसीए	इन्दौर	01.02.11
139	409829	सीए अमित कुमार शर्मा एसीए	सीकर	16.03.11	154	410763	सीए ओम प्रकाश पाण्य एसीए	जमशेदपुर	31.08.10
140	409996	सीए हेमन्त प्रजापत एसीए	मुम्बई	31.03.10	155	410772	सीए नितिन अग्रवाल एसीए	जयपुर	15.02.11
141	410021	सीए अंकुर सक्सेना एसीए	लखनऊ	27.08.10	156	410790	सीए मोहउद्दीन एसीए	बरेली	23.03.11
142	410062	सीए रवि दूसाड़ एसीए	जयपुर	20.05.10	157	410822	सीए देवेन्द्र अग्रवाल एसीए	जयपुर	21.03.11
143	410196	सीए दिलीप गुप्ता एसीए	जयपुर	21.03.11	158	410857	सीए दिव्या शर्मा एसीए	जयपुर	06.09.10
144	410266	सीए चमेश विजय वैराग्य एसीए	अजमेर	31.10.10	159	410904	सीए सुमित एस चौरसिया एसीए	राजनंदगांव	31.07.10
145	410340	सीए मनीष जैन एसीए	जयपुर	28.03.11	160	410934	सीए मनीषा सिंघल, एसीए	इलाहाबाद	12.01.11
146	410345	सीए अभिजीत कुमार एसीए	रावतभाटा	03.08.10	161	410952	सीए प्रभात कुशवाहा एसीए	आगरा	26.04.10



S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
162	410975	सीए रूपेन्द्र सिंह चौहान एसीए	बीकानेर	12.03.11	177	411735	सीए गौरव अग्रवाल एसीए	आगरा	01.03.11
163	411102	सीए बन्कू बिहारी बाग एसीए	जमशेदपुर	20.03.10	178	411853	सीए राहुल जनवेजा एसीए	देहरादून	18.09.10
164	411114	सीए सुमित बनर्जी एसीए	मुम्बई	11.09.10	179	411976	सीए अवलीन कौर, एसीए	कानपुर	27.02.11
165	411220	सीए राहुल अग्रवाल एसीए	सोनीपट्टी सिटी	20.03.11	180	412174	सीए रवि अग्रवाल एसीए	लखनऊ	01.03.11
166	411284	सीए सौरव केजरीवाल एसीए	गुडगांव	19.08.10	181	412216	सीए नेहा कंसल एसीए	मेरठ	28.02.11
167	411307	सीए वीरेन्द्र अगलेछा एसीए	बरवानी	04.05.10	182	412290	सीए किशन कुमार बासोठिया एसीए	कानपुर	21.12.10
168	411332	सीए राकेश बंसल एसीए	बीकानेर	11.08.10	183	412336	सीए श्रुति गुप्ता एसीए	उज्जैन	01.10.10
169	411352	सीए मोनिका अग्रवाल एसीए	मुजफ्फरनगर	01.01.11	184	412340	सीए राजीव कुमार एसीए	गाजियाबाद	21.12.10
170	411393	सीए संजीव कुमार झाँ एसीए	रेवा	09.02.11	185	412343	सीए सुचिता गोयल एसीए	भोपाल	19.12.10
171	411397	सीए मनीष कुमार गुप्ता एसीए	नई दिल्ली	01.04.10	186	412349	सीए आशीष रावत एसीए	जयपुर	03.10.10
172	411446	सीए सुनील शर्मा एसीए	जयपुर	01.04.10	187	412412	सीए नेहा कवात्रा एसीए	सहारनपुर	07.02.11
173	411508	सीए शाइल रंगता एसीए	खलीलाबाद	01.09.10	188	412445	सीए आशीष कटरे, एसीए	मिर्जापुर	08.10.10
174	411644	सीए अखिल महेश्वरी एसीए	जयपुर	20.03.10	189	412524	सीए प्रवीन शेखर, एसीए	दन्तेवाड़ा	10.11.10
175	411660	सीए अंकित गुप्ता एसीए	जयपुर	01.04.10	190	412637	सीए प्राची शर्मा एसीए	जयपुर	17.10.10
176	411714	सीए रिषी प्रकाश एसीए	इलाहाबाद	15.03.11	191	412938	सीए गौरंगा देनगला एसीए	जयपुर	10.03.11

S. NO.	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N.	NAME	CITY	CANCEL DATE
192	452971	सीए सौरभ मोहनोठ एसीए	जयपुर	22.02.11	199	514206	सीए नवनीत गुप्ता एसीए	महोबा	06.03.11
193	501385	सीए शैलेश कुमार एसीए	दरभंगा	20.12.10	200	514799	सीए मनीष मित्तल एसीए	गाजियाबाद	05.06.10
194	505789	सीए शर्मा ललित कुमार एसीए	गाजियाबाद	21.06.10	201	515230	सीए रुचि अग्रवाल एसीए	इलाहाबाद	07.06.10
195	509474	सीए राजेश कुमार एसीए	भागलपुर	10.02.10	202	515244	सीए ओमकार सिंह एसीए	जमशेदपुर	01.01.11
196	511046	सीए अमित अग्रवाल एसीए	गाजियाबाद	01.04.10	203	515448	सीए गरिमा बागला एसीए	नवी मुम्बई	30.05.10
197	512876	सीए आशुतोष मिश्रा एसीए	नोएडा	02.08.10	204	515612	सीए हंसिका अग्रवाल एसीए	बरेली	12.07.10
198	513203	सीए रीतेश राय एसीए	आजमगढ़	01.04.10					

टी० कार्तिकेयन  
सचिव

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208001, the 27th January 2012

## Chartered Accountants

3CCA (8) (1)2010-2011: in pursuance of Regulation 10(I)(IV) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the 01<sup>st</sup> October 2010, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1	014797	CA RAJ BALI MISHRA FCA	BHADOHI	11	076728	CA KHANDELWAL ASHOK KUMAR FCA	JAIPUR
2	055599	CA RAJ NARAYAN NARONE FCA	GHAZIA BAD	12	077142	CA SINGH AJAY PRATAP FCA	NOIDA
3	056313	CA NEWAR PRAKASH ACA	KOLKATA	13	077143	CA AGARWAL RITU ACA	NOIDA
4	071183	CA AGARWAL PRADEEP FCA	MEERUT	14	077185	CA RAJIT MALHOTRA ACA	NOIDA
5	071504	CA RATHI KEDAR MAL ACA	JAIPUR	15	077209	CA BHUVANESH GUPTA FCA	KOTA
6	072312	CA AGARWAL RAJENDRA KUMAR FCA	KANPUR	16	077953	CA CHOWDHARI NAVEEN FCA	INDORE
7	073645	CA JAIN TEJ KUMAR ACA	JAIPUR	17	078045	CA SAHNI PRAVEEN KUMAR FCA	MUZAFFAR NAGAR
8	073721	CA PREM KUMAR AGRAWAL ACA	KANPUR	18	078612	CA AGARWAL VINEET ACA	BHILAI
9	073969	CA SAINANI KUNDAN ACA	UDAIPUR	19	078919	CA VIJAYANT GOYAL ACA	INDORE
10	075723	CA GUPTA KRISHAN KUMAR ACA	JAIPUR	20	078959	CA BHARGAVA SHARAD ACA	GHAZIABAD

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
21	079227	CA RANKA NITIN ACA	JAIPUR	37	403862	CA SARASWAT TEENA ACA	INDORE
22	093122	CA JAIN VARDHMAN FCA	NOIDA	38	403879	CA JAIN SACHIN ACA	JHANSI
23	400153	CA BANSAL BHARAT ACA	GHAZIA BAD	39	404025	CA AGARWAL NIDHI ACA	JAIPUR
24	400721	CA VIVEK KUMAR JAIN FCA	JAIPUR	40	404870	CA SRIVASTAVA VINEET ACA	LUCKNOW
25	401208	CA SACHAN MEGHA ACA	KOTA	41	405136	CA ASHWANI MAHESHWARI FCA	JAIPUR
26	401301	CA SWATANTRA KUMAR SINGH FCA	AGRA	42	405580	CA SHILPI SETH ACA	JABALPUR
27	401492	CA RACHNA BAIS FCA	BLIJNOR	43	406000	CA BRAJESH KUMAR PANDEY ACA	ALLAHA BAD
28	401697	CA PRATEEK KUMAR FCA	MEERUT	44	406468	CA ABHINAV GUPTA ACA	JAIPUR
29	401843	CA AGRAWAL SACHIN ACA	GHAZIA BAD	45	407524	CA AKHILESH TIWARI ACA	BHOPAL
30	402183	CA SHALINI BHANDARI ACA	JAIPUR	46	408282	CA ANURAG GUPTA ACA	BANGA LORE
31	402216	CA SARKAR SUDEEP ACA	INDORE	47	408433	CA NISHI GOEL ACA	DELHI
32	402474	CA MODI MANJARI ACA	RANCHI	48	408975	CA SHUBHI SETH ACA	JAIPUR
33	402601	CA JHA VIJAY KUMAR ACA	RANCHI	49	409361	CA AMIT KUMAR VAISH ACA	LUCKNOW
34	402744	CA MADHU GHIYA ACA	BIKANER	50	410090	CA ARVIND KUMAR SHUKLA ACA	KANPUR
35	403304	CA HOZEFA RASHID SAIFUDDIN ACA	UDAIPUR	51	410169	CA RACHANA JAIN ACA	PALI MARWAR
36	403676	CA ARORA ASHISH ACA	MIRZAPUR	52	410296	CA SHWETA AGRAWAL ACA	AGRA

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
53	410362	CA RUCHIKA GUPTA ACA	SRIGANGA NAGAR	62	506184	CA BIPLOB HALDER ACA	GHAZIA BAD
54	410727	CA PRIYANSHI GOYAL ACA	JAIPUR	63	508805	CA LAKSHMAN SHARMA ACA	GHAZIA BAD
55	410898	CA VIVEK VERMA ACA	ALLAHA BAD	64	512393	CA MANIT KUNAL ACA	GHAZIA BAD
56	410992	CA GYAN MURTI SHAH ACA	CHAIBASA	65	513164	CA NIKHIL MAHESHWARI ACA	NOIDA
57	411727	CA ANSHUL SHEKHAR NAYAK ACA	BHILAI	66	513201	CA RAJAN KAYASTHA ACA	NOIDA
58	501495	CA SHASHI SHANKER ACA	MADHU BANI	67	513478	CA NITIN JAIN ACA	MEERUT
59	502244	CA GARG SHUCHI ACA	GHAZIA BAD	68	513769	CA SHIVANGI JAIN ACA	SAHIBA BAD
60	502462	CA MUKTA BANSAL ACA	GHAZIA BAD	69	514908	CA PAWAN KESARWANI ACA	ALLAHA BAD
61	503010	CA GUPTA ASHISH FCA	FIROZA BAD				

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

3CCA (8) (2)2010-2011: in pursuance of Clause (iii) Regulation 10(I) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO- M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
1	028498	CA ASHOK R FCA	NOIDA	05/04/2010	11	071798 CA BHANDARI NALIN FCA	NOIDA	14/02/2011
2	046627	CA NAVIN JAIN FCA	JAIPUR	21/02/2011	12	072151 CA KAPOOR DEEPAK FCA	MEERUT	07/07/2010
3	056828	CA SRIVASTAVA MUKESH FCA	BANGA LORE	04/01/2011	13	073072 CA AGRAWAL SANJIV FCA	KANPUR	12/10/2010
4	061124	CA BENKTESH KUMAR PANDEY FCA	NEW DELHI	31/03/2010	14	073156 CA PALRIWALA MURARI FCA	INDORE	13/12/2010
5	064130	CA ADUKIA VIKAS KUMAR ACA	JABAL PUR	20/02/2011	15	073182 CA KAPOOR PUNEET FCA	LUCKNOW	01/07/2010
6	065426	CA KAMLENDRA JHA ACA	VARA NASI	15/05/2009	16	073338 CA AGRAWAL ANIL KUMAR FCA	JAIPUR	01/04/2010
7	067309	CA ABHINAB AGRAWAL ACA	FORBES GANJ	10/05/2010	17	073410 CA SHYAM SUNDER SULTANIA ACA	JAIPUR	01/03/2010
8	070176	CA GUPTA KAMAL RAJ FCA	KAN PUR	04/05/2010	18	073818 CA GUPTA RAM PHAL FCA	AGRA	15/09/2010
9	070409	CA ABROL ANIL KUMAR FCA	GHAZIA BAD	05/12/2010	19	074364 CA SOGANI KAMAL KUMAR FCA	JAIPUR	08/11/2010
10	071553	CA RANGA PANNA LAL FCA	JODH PUR	01/04/2010				

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
20	074605	CA AGARWAL SANJAY FCA	LUCKNOW	01/04/2010	34	078042	CA NYATI SASHANT FCA	INDORE	04/03/2011
21	074755	CA GUPTA SANJEEV KUMAR FCA	GHAZIABAD	20/12/2010	35	078131	CA KOTHARI NARESH FCA	JAIPUR	25/02/2011
22	074981	CA BANSAL OM PRAKASH ACA	JAIPUR	29/01/2011	36	078634	CA SEEMA KHANDELIA FCA	JAIPUR	13/05/2010
23	075387	CA AGARWAL SANJEEV KUMAR FCA	RUDRAPUR	26/08/2009	37	078736	CA SRIVASTAVA ASHISH KUMAR FCA	KANPUR	01/03/2011
24	076003	CA NAVEDIA MAHAVEER FCA	UDAIPUR	05/10/2010	38	078912	CA GUPTA ANIL KUMAR FCA	INDORE	14/03/2011
25	076024	CA SRIVASTAVA ANUPAM FCA	NEW DELHI	01/04/2010	39	078992	CA SRIVASTAVA MANISH KUMAR FCA	LUCKNOW	04/09/2010
26	076587	CA GUPTA BHARAT BHUSHAN FCA	JAIPUR	16/08/2010	40	079282	CA NARENDRA KUMAR BHANDARI FCA	BIJAINAGAR	22/02/2011
27	076643	CA MITTAL NITIN FCA	GHAZIABAD	09/06/2010	41	079313	CA SHARMA KUNJ BEHARI FCA	KOLKATA	02/02/2011
28	077092	CA GUPTA RAM BABU FCA	MANGALORE	07/06/2010	42	079372	CA RITESH AGRAWAL FCA	RAIPUR	01/08/2010
29	077216	CA MODI NITIN FCA	JAIPUR	15/11/2010	43	079404	CA MONA MATHUR FCA	JAIPUR	25/10/2010
30	077226	CA DHANUKA MANOJ FCA	INDORE	14/07/2010	44	079694	CA AGARWAL ANKUR FCA	GHAZIABAD	20/04/2010
31	077326	CA JINDAL SAMEER SEN FCA	GHAZIABAD	28/06/2010	45	079866	CA JITESH AGARWAL FCA	JAIPUR	31/03/2010
32	077422	CA NANDWANA LALIT FCA	JAIPUR	27/12/2010	46	079899	CA ANAND KUMAR YADAV FCA	JAIPUR	05/02/2011
33	077789	CA SINGH DALIP KUMAR ACA	JAMSHED PUR	06/12/2010	47	079928	CA SHYAM SUNDAR RAI FCA	VARANASI	28/03/2011

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
48	079958	CA PAWAN KUMAR KEDIA FCA	JAIPUR	01/04/2010	63	400547	CA MANISH CHANDRA BANSAL FCA	GHAZIABAD	25/05/2010
49	083880	CA GUPTA SATISH KUMAR FCA	GURGAON	08/03/2011	64	400969	CA KATTA GURU PAD ACA	JAIPUR	31/08/2010
50	087855	CA CHATURVEDI KAILASH NATH FCA.	MATHURA	15/11/2010	65	400975	CA NARENDRA LALWANI FCA	BEAWAR	11/01/2011
51	089302	CA BHARAT BHUSHAN FCA	SRIGANGA NAGAR	01/12/2010	66	401169	CA PIYUSH MITTAL FCA	BHARATPUR	14/10/2010
52	095699	CA AGGARWAL HEMANT ACA	GHAZIABAD	12/09/2010	67	401211	CA SAURABH VISHNU AGARWAL FCA	PATNA	01/04/2010
53	096049	CA GUPTA RAJEEV. ACA	NOIDA	15/02/2010	68	401533	CA MUKESH VARYANI FCA	SHAJAPUR	31/08/2010
54	097401	CA MANMOHAN KUMAR FCA	GHAZIABAD	20/11/2010	69	401600	CA RAJIV GOEL FCA	KANPUR	15/10/2010
55	097421	CA DADOO NITIN FCA	GHAZIABAD	01/09/2010	70	401796	CA SUNIL TALREJA FCA	JAIPUR	31/03/2010
56	098487	CA VIPINA GOEL FCA	NOIDA	15/05/2010	71	402133	CA AKHILESH AGRAWAL FCA	VARANASI	01/04/2010
57	098972	CA JAIN MANINDER FCA	NEW DELHI	23/08/2010	72	402374	CA BANU SAMINA FCA	UDAIPUR	12/08/2010
58	099690	CA GAJENDRA KUMAR SINGH FCA	GHAZIABAD	14/01/2010	73	402446	CA ALOK SINGH FCA	JAIPUR	25/05/2010
59	106022	CA MANISH KUMAR V TYAGI FCA	MUMBAI	03/05/2010	74	402463	CA ARVIND SHARMA ACA	JAIPUR	07/04/2010
60	111813	CA GIRIRAJ SOMANI ACA	BUNDI	01/04/2010	75	402555	CA GUNJAN VIMAL KUMAR PODDAR FCA	RAJNAND GAQN	01/08/2010
61	400017	CA OSTWAL PANKAJ FCA	BHILWARA	03/09/2010	76	402592	CA ASHISH AGRAWAL FCA	PANSEMAL	20/09/2010
62	400086	CA JAISWAL RAVI FCA	JAIPUR	02/07/2010	77	403024	CA KANCHHAL AJAY KUMAR ACA	TONK	30/03/2010

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
78	403061	CA VIPIN KHANDELWAL FCA	VALSAD	02/02/2011	92	404435	CA GOYAL ASHISH ACA	INDORE	20/02/2010
79	403106	CA AGRAWAL SUNIL ACA	JAIPUR	13/07/2010	93	404478	CA MISRA VIPIN FCA	KANPUR	01/04/2010
80	403179	CA AGRAWAL PANKAJ KUMAR ACA	JAIPUR	02/01/2011	94	404508	CA SUMAN BHATIA ACA	SRIGANGAN AGAR	28/12/2010
81	403375	CA GUPTA VINOD KUMAR ACA	GANDHI DHAM	01/04/2010	95	404514	CA AGARWAL NITIN KUMAR FCA	LUCKNOW	01/04/2010
82	403681	CA MISHRA ASHOO ACA	KANPUR	21/05/2010	96	404620	CA JAIN GAURAV ACA	INDORE	10/05/2010
83	403719	CA CHAPLOT MAYANK FCA	UDAIPUR	25/10/2010	97	404656	CA DEEPAK KUMAR GOYAL ACA	BHARATPUR	01/06/2010
84	403902	CA RAO PRASHANT SINGH ACA	UDAIPUR	31/12/2010	98	404877	CA DEEPAK GUPTA ACA	BARAN	24/03/2011
85	403915	CA MAWANDIA MANISH KUMAR ACA	JAIPUR	20/12/2010	99	405116	CA GARG KAPIL ACA	BHARATPUR	22/06/2010
86	404059	CA MISHRA RAKESH KUMAR ACA	JACAHED PUR	01/12/2010	100	405177	CA NAFIS AHMED ACA	KANPUR	01/11/2010
87	404066	CA BHADORIA SANJAY SINGH ACA	BHOPAL	31/03/2010	101	405198	CA AGARWAL SARIKA FCA	KANPUR	01/04/2010
88	404186	CA JOSHI RAJ KUMAR FCA	BIKANER	28/02/2011	102	405862	CA MUKUL BHAGAT ACA	KANPUR	01/12/2010
89	404284	CA RASTOGI SHAILESH FCA	THANE	01/04/2010	103	406029	CA PRATIBHA PAUL ACA	RANCHI	01/02/2011
90	404313	CA PRATIBHA MAHESHWARI ACA	INDORE	07/02/2011	104	406159	CA AMIT KUMAR FCA	BULAND SHAHR	25/10/2010
91	404337	CA SAURABH TRIPATHI ACA	AURAIYA	18/11/2010	105	406216	CA SHELESH NAVLAKHA ACA	KOLKATA	05/06/2010
					106	406444	CA SOURABH KUMAR SHUKLA ACA	JABALPUR	04/11/2010
					107	406685	CA ASHUTOSH KUMAR ACA	VARANASI	18/03/2011



SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
108	406947	CA AMIT KHANDELWAL ACA	JAIPUR	17/02/2011	122	408719	CA HIMANSHU JAIN ACA	AGRA	04/10/2010
109	407146	CA DHARMENDRA KUMAR ACA	BALOTRA	10/05/2010	123	408812	CA AJAY KUMAR PUROHIT ACA	BIKANER	15/06/2010
110	407150	CA NEELESH GUPTA ACA	HYDERABAD	19/02/2011	124	408861	CA SWATI MEHROTRA ACA	LUCKNOW	24/06/2010
111	407201	CA ATAL RAM CHHATRI ACA	SAGAR	01/04/2010	125	408959	CA SHOKAT AZAM SHEIKH ACA	BHOPAL	03/12/2010
112	407296	CA PRASHANT PARIMAL ACA	NEW DELHI	09/07/2010	126	408984	CA NIKUNJ AGARWAL ACA	JAIPUR	02/12/2010
113	407492	CA AMIT KUMAR JAIN ACA	RAIPUR	17/07/2010	127	409024	CA VIJAY KUMAR NAVLANI ACA	AGRA	03/02/2011
114	407619	CA PRADEEP AJMERA ACA	JAIPUR	01/03/2010	128	409040	CA NEELIMA KHANDELWAL ACA	KANPUR	15/11/2010
115	407703	CA SUBHASH CHANDRA PANDEY ACA	GONDA	05/09/2010	129	409164	CA VARUN KUMAR GUPTA ACA	GHAZIABAD	13/03/2010
116	407872	CA ASHISH AGARWAL ACA	JACAHED PUR	15/11/2010	130	409167	CA AANCHAL SETH ACA	JABALPUR	20/08/2010
117	407877	CA VIREN SINGH GEHLOT ACA	JODHPUR	01/04/2010	131	409206	CA NISHANT SONI ACA	RAJNAND GAON	13/12/2010
118	407887	CA NIMESH KUMAR SARASWAT ACA	GONDA	01/11/2010	132	409370	CA REHANUMA KHAN ACA	UDAIPUR	02/01/2011
119	408170	CA BHAGCHAND JAIN ACA	NAGPUR	08/05/2010	133	409419	CA SANDEEP KUMAR MALU ACA	JAIPUR	24/05/2010
120	408635	CA AYUSH JAIN ACA	INDORE	20/01/2011	134	409518	CA VIPIN TAMBI ACA	JAIPUR	12/08/2009
121	408666	CA HARISH KUMAR GUPTA ACA	BHILAI	01/09/2010	135	409746	CA AMIT KUMAR ACA	PATNA	12/08/2010

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
136	409792	CA NEETI SRIVASTAVA ACA	JAIPUR	13/07/2010	151	410631	CA RAVI KHANDLWAL ACA	DAUSA	15/03/2011
137	409796	CA SHYAM SUNDER PRASAD THAKUR ACA	JAMSHED PUR	11/09/2010	152	410697	CA SANDEEP SINGH MALHOTRA ACA	RANCHI	09/08/2010
138	409821	CA SHAILENDRA KUMAR ACA	RAIPUR	25/03/2010	153	410730	CA JYOTI CHOUHAN ACA	INDORE	01/02/2011
139	409829	CA AMIT KUMAR SHARMA ACA	SIKAR	16/03/2011	154	410763	CA OM PRAKASH PANDEY ACA	JAMSHED PUR	31/08/2010
140	409996	CA HEMANT PRAJAPAT ACA	MUMBAI	31/03/2010	155	410772	CA NITIN AGRAWAL ACA	JAIPUR	15/02/2011
141	410021	CA ANKUR SAXENA ACA	LUCKNOW	27/08/2010	156	410790	CA MOHI UDDIN ACA	BAREILLY	23/03/2011
142	410062	CA RAVI DUSAD ACA	JAIPUR	20/05/2010	157	410822	CA DEVENDRA AGRAWAL ACA	JAIPUR	21/03/2011
143	410196	CA DILIP GUPTA ACA	JAIPUR	21/03/2011	158	410857	CA DIVYA SHARMA ACA	JAIPUR	06/09/2010
144	410266	CA UMESH VIJAYVARGIA ACA	AJMER	31/10/2010	159	410904	CA SUMIT S CHOURASIA ACA	RAJNAND GAON	31/07/2010
145	410340	CA MANISH JAIN ACA	JAIPUR	28/03/2011	160	410934	CA MANISHA SINGHAL ACA	ALLAHABAD	12/01/2011
146	410345	CA ABHIJIT KUMAR ACA	RAWAT BHATA	03/08/2010	161	410952	CA PRABHAT KUSHWAH ACA	AGRA	26/04/2010
147	410394	CA VARUN GOENKA ACA	BHAGALPUR	01/02/2011	162	410975	CA RUPENDER SINGH CHOUHAN ACA	BIKANER	12/03/2011
148	410407	CA RANU MANDORA ACA	MUMBAI	18/01/2011	163	411102	CA BANKU BIHARI BAG ACA	JAMSHED PUR	20/03/2010
149	410445	CA NISHANT VIJAYVARGIA ACA	JAIPUR	18/09/2010	164	411114	CA SUMIT BANERJEE ACA	MUMBAI	11/09/2010
150	410605	CA MOHIT KHEMKA ACA	HATHRAS	02/01/2011					

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
165	411220	CA RAHUL AGRAWAL ACA	SOJAT CITY	20/03/2011	181	412216	CA NEHA KANSAL ACA	MEERUT	28/02/2011
166	411284	CA SAURAV KEJRIWAL ACA	GURGAON	19/08/2010	182	412290	CA KISHAN KUMAR BASOTIA ACA	KANPUR	21/12/2010
167	411307	CA VIRENDRA AGLECHA ACA	BARWANI	04/05/2010	183	412336	CA SHRUTI GUPTA ACA	UJJAIN	01/10/2010
168	411332	CA RAKESH BANSAL ACA	BIKANER	11/08/2010	184	412340	CA RAJIV KUMAR ACA	GHÁZIABAD	21/12/2010
169	411352	CA MONIKA AGARWAL ACA	MUZAFFAR NAGAR	01/01/2011	185	412343	CA SUCHITA GOEL ACA	BHOPAL	19/12/2010
170	411393	CA SANJIV KUMAR JHA ACA	REWA	09/02/2011	186	412349	CA ASHISH RAWAT ACA	JAIPUR	03/10/2010
171	411397	CA MANISH KUMAR GUPTA ACA	NEW DELHI	01/04/2010	187	412412	CA NEHA KWATRA ACA	SAHARAN PUR	07/02/2011
172	411446	CA SUNIL SHARMA ACA	JAIPUR	01/04/2010	188	412445	CA ASHISH KATARE ACA	MIRZAPUR	08/10/2010
173	411508	CA SHAIL RUNGTA ACA	KHALILA BAD	01/09/2010	189	412524	CA PRAVIN SHEKHAR ACA	DANTE WADA	10/11/2010
174	411644	CA AKHIL MAHESHWARI ACA	JAIPUR	20/03/2010	190	412637	CA PRACHI SHARMA ACA	JAIPUR	17/10/2010
175	411660	CA ANKIT GUPTA ACA	JAIPUR	01/04/2010	191	412938	CA GAURANG DENGLA ACA	JAIPUR	10/03/2011
176	411714	CA RISHI PRAKASH ACA	ALLAHABAD	15/03/2011	192	412971	CA SAURABH MOHNOT ACA	JAIPUR	22/02/2011
177	411735	CA GAURAV AGARWAL ACA	AGRA	01/03/2011	193	501385	CA SHAILESH KUMAR ACA	DARBHANGA	20/12/2010
178	411853	CA RAHUL JANVEZA ACA	DEHRADUN	18/09/2010	194	505789	CA SHARMA LALIT KUMAR ACA	GHÁZIABAD	21/06/2010
179	411976	CA AVALEEN KAUR ACA	KANPUR	27/02/2011	195	509474	CA RAJESH KUMAR ACA	BHAGALPUR	10/02/2010
180	412174	CA RAVI AGARWAL ACA	LUCKNOW	01/03/2011	196	511046	CA AMIT AGGARWAL ACA	GHAZIABAD	01/04/2010

SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO-	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
197	512876	CA ASHUTOSH MISHRA ACA	NOIDA	02/08/2010	202	515244	CA OMKAR SINGH ACA	JAMSHED PUR	01/01/2011
198	513203	CA RITESH RAI ACA	AZAMGARH	01/04/2010	203	515448	CA GARIMA BAGLA ACA	NAVI MUMBAI	30/05/2010
199	514206	CA NAVNEET GUPTA ACA	MAHOBA	06/03/2011	204	515612	CA HANSIKA AGARWAL ACA	BAREILLY	12/07/2010
200	514799	CA MANISH MITTAL ACA	GHAZIABAD	05/06/2010					
201	515230	CA RUCHI AGARWAL ACA	ALLAHABAD	07/06/2010					

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं  
प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012